

CMX HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as SIEL FINANCIAL SERVICES LIMITED)

CIN: L74110MP1990PLC007674 (PREVIOUS CIN: L65999MP1990PLC007674)

September 11, 2024

To,
Department of Corporate Relationship
BSE Limited,
Phiroze Jecjechhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai,
Maharashtra- 400 001

Scrip Code: 532217

<u>Subject</u>: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, we enclose herewith copy of advertisements published today on 11th September, 2024, concerning 33rd Annual General Meeting that to be held on Monday, September 30, 2024 at 10:00 a.m. through two-way Video Conferencing ('VC') facility / Other Audio-Visual Means ('OAVM'). The advertisements were published in the following newspapers-:

- 1) Financial Express daily (English)
- 2) Swadesh Indore (Hindi)

Kindly take the above information on your records and acknowledge the receipt.

Thanking You,

Yours Sincerely,

For CMX Holdings Limited (Formerly known as SIEL Financial Services Limited)

Aveen Kaur Sood

Director

DIN-02638453

Encl: As above

संक्षिप्त समाचार

सोना-चांदी में मजबूती

इंदौर। स्थानीय सर्राफा बाजार में सोना तथा चांदी ऊंची बिकी। आज सिक्का पूर्ववत ऊंचा बताया गया। विदेशी बाजार में सोना 2505 डालर व चांदी 2844 सेन्ट प्रति औंस बिकी। उल्लेखनीय है कि सोना- चांदी के भाव में देर रात तक फेरबदल होता रहता है। सोना 73600 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी ८३८०० रुपये प्रति किलोग्राम। चांदी सिक्का ९५० रुपये प्रति नग।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें यथावत नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल



के दाम आज यथावत रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपये

प्रति लीटर पर पडे रहे ातेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार, देश में आज पेटोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर रहा।

इलैक्ट्रॉनिक उत्पादन के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी-मारुति

नई दिल्ली। वाहन उद्योग को विशेष रूप से सैमीकंडक्टर सहित इलैक्ट्रॉनिक कलपुर्जी के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। मारुति सुजुकी इंडिया के एक व ?रिष्ठ अ ?धिकारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि महंगे आयात पर निर्भरता कम करने और उत्पादों को किफायती बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए) के 64वें सत्र में कहा कि वाहन उद्योग सुविधा, सुरक्षा और विकसित हो रहे नियमों के पालन करने के चलते एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ग्राहक विशेष सुविधाओं से युक्त तकनीक-संचालित अनुभव चाहते हैं और यह बदलाव वाहनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है।

रुपये ने सीमित दायरे में किया कारोबार मुंबई। रुपया मंगलवार को शुरुआती

कारोबार में तीन पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.98 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में नरम रुख के बीच



रुपये ने सीमित दायरे में कारोबार किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया एक पैसे मजबत होकर 83.95 प्रति डॉलर

पर खला। शरुआती सौदों के बाद 83.98 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट को ?दिखाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ८३.९५ प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 101.63 अंक पर रहा। शुरुआती सौदों के बाद 83.98 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 101.63 अंक

एजेंसी 📕 नई दिल्ली

सबसे ज्यादा निवेश फरवरी 2020 में

देखने को मिला था। गोल्ड ईटीएफ में

फरवरी 2020 के दौरान 1,483.33 करोड रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया था। अप्रैल को छोडकर इस साल के बाकी 7 महीनों के दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा है। इस साल गोल्ड ईटीएफ में अभी तक सिर्फ अप्रैल में निकासी दर्ज की गई।

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन

इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार

चना-तुअर में नरमी, शकर में खरीदी

स्वदेश समाचार 📕 इंदौर

सियागंज किराना बाजार में शकर में ग्राहकी बताई गई। खाद्य तेलों में तेजी दर्ज की गई। आज मुंगफली तेल महंगा बिका। तिलहन में मजबूती रही। दलहन तथा दाल में मंदी हुई। चना कांटा तथा तुअर में दिसावर भी नरम बोले गए। चावल में उठाव सामान्य वत बना रहा।

किराना बाजार: सियागंज किराना बाजार में शकर में खरीदी रही। आज शकर में चार गाडी की आवक हुई। खोपरा बरा दिसावर के साथ मजबत रहा। साबदाना में नवरात्र की लिवाली रही।

तेल-तिलहन: खाद्य तेलों में लिवाली से तेजी रही। आज मुंगफली तेल, सोयाबीन रिफाइंड तथा पाम तेल में स्धार रहा। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में मांग बढ़ने के आसार हैं। तिलहनों में सरसों में लिवाली से सुधार

दाल-दलहन : संयोगितागंज अनाज मंडी में दलहन जिन्सों में दाल मिलों की मांग अटकने से नरमी रही। इससे चना, तुअर में 50 और 100 रुपये कम हए। चावल में मांग बनी रही।

किराना: शकर 3920 से 3960 रुपये प्रति क्विंटल। खोपरा गोला 150 से 170 रुपये प्रति किलोग्राम। खोपरा बूरा 2700 से 4700 रुपये प्रति 15 किलोग्राम। हल्दी खडी 220 से 285 रुपये प्रति किलोग्राम। साबूदाना 6400 से 6900, पैकिंग में 7200 से 7300 रुपये प्रति क्रिंटल।

तिलहन: सरसों निमाड़ी 5400 से 5800, सोयाबीन



4500 से 4600 रुपये प्रति क्रिंटल। तेल : मूंगफली तेल इंदौर 1630 से 1650, सोयाबीन रिफाइंड 980 से 985, साल्वेंट 940 से 945, पाम तेल 1050 से 1055 रुपये प्रति 10 किलो।

दलहन: चना (कांटा) 7650 से 7700, चना विशाल 7450 से 7500, मसूर 6000 से 6050, तुअर निमाड़ी 9500 से 10800, तुअर सफेद (महाराष्ट्र) 11400 से 11500, तुअर (कर्नाटक) 11400 से 11600, मूंग 7800 से 8300, मूंग हल्की 7200 से 7700, उडद 8600 से 9200, हल्की 3000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल।

दाल: चना दाल 9000 से 9500, तुअर दाल सवा नंबर 14200 से 14300, तुअर दाल फूल 15100 से 15300, तुअर दाल बोल्ड 16100 से 16200, आयातित तुअर दाल 13100 से 13200, मसूर दाल 7200 से 7500, मूंग दाल 9800 से 10100, मूंग मोगर 10500 से 10900, उड़द दाल 10800 से 11100, उडद मोगर 11200 से 11600 रुपये प्रति क्रिंटल।

कपास्या खली में मांग

पश्रआहार कपास्या खली में मांग बताई गई। कपास्या खली इंदौर २४५०, कपास्या खली देवास २४५०, कपास्या खली उज्जैन २४५०, कपास्या खली खंडवा २४२५, कपास्या खली बरहानपर २४२५ रुपये प्रति ६० किग्रा। कपास्या खली अकोला ३६०० रुपये प्रति विवंटल। भाव टैक्स पेड हैं।

रात की धारणा में सुधार का रुख

रात की धारणा में तेल बाजार सुधार का रुख लिए रहे। मुंबई मुंगफली तेल 1610 से 1620, मुंबई पाम तेल 985 से 990, मुंबई सोयाबीन रिफाइंड 995 से 1000, राजकोट तेलिया 2510 से 2520, गुजरात मूंगफली तेल 1630 से 1650, गुजरात कपास्या तेल ९९५ से १०००, मूंगफली तेल इंदौर 1630 से 1650, सोयाबीन रिफाइंड 980 से 985, इंदौर सोयाबीन सार्त्वेट ९४० से ९४५, इंदौर पाम तेल १०५० से १०५५ रुपये प्रति दस किलोग्राम।

चावल-पोहा: बासमती 11500 से 12500, तिबार 10000 से 11000, दुबार 8500 से 9500, मिनी दुबार 7000 से 7500, मोगरा 4500 से 7000, बासमती सैला 7000 से 9500, कालीमूंछ 8000 से 8500, राजभोग 6500 से 7500, दूबराज 4000 से 4500, परमल 2800 से 3000, हंसा सैला 2900 से 3100, हंसा सफेद 2500 से 2700, पोहा 4700 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल।

रवा-मैदा: रवा 1750, मैदा 1710, आटा 1670, चना बेसन 5100 रुपये प्रति 50 किलोग्राम।

सेंसेक्स ३६१ अंक चढ़ा

बीच स्थानीय स्तर पर आईटी, बिकवाली हुई वहीं 104 में कोई दुरसंचार, युटिलिटीज, पावर और टेंक समेत सत्रह समूहों में हुई निफ्टी की 34 कंपनियों के शेयरों लिवाली की बदौलत आज शेयर में तेजी जबकि 16 में गिरावट

बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सचकांक सेंसेक्स 361.75 अंक होकर

81,921.29 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 104.70 अंक की तेजी के पार 25,041.10 अंक पर पहंच गया। इसी तरह बीएसई का मिडकैप प्रतिशत चढकर 48,625.13 अंक और स्मॉलकैप 1.53 प्रतिशत की छलांग लगाकर 56,467.87 अंक पर बंद हआ। बीएसई में कुल 4042

कंपनियों के शेयरों में कारोबार

विश्व बाजार के मिलेजले रुख के लिवाली जबकि 1352 में बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह

> रही।बीएसई के 17 समूहों में तेजी रही। इससे कमोडिटीज 0.59, सीडी 0.72, एफएमसीजी 0.35, हेल्थके यर इंडस्ट्रियल्स 1.25,

आईटी 1.52, दुरसंचार 2.00, यूटिलिटीज 1.76, ऑटो 0.30, बैंकिंग 0.25, कैपिटल गुड्स 1.07, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.98, धात् 0.16, पावर 1.74, रियल्टी 0.92, टेक 1.62 और सर्विसेज समह के शेयर 1.20 प्रतिशत मजबूत रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलाजुला रुख रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफ़टीएसई 0.44, जर्मनी का डैक्स 0.02 और जापान का निक्केई 0.16 प्रतिशत

हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का अपडेटेड वर्जन लांच

टॉप सेलिंग बाइक अब डिस्क ब्रेक के साथ पेश

एजेंसी 📕 नई दिल्ली

भारतीय बाजार में हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का अपडेटेड वर्जन लांच कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की यह टॉप सेलिंग बाइक अब डिस्क ब्रेक के साथ पेश की जा रही है। पिछले व्हील पर ड्रम बेक्र ही मिलेंगे।

स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को नए ग्राफिक्स और मामुली कॉस्मेटिक अपडेट के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने बाइक के डिजाइन, अन्य हार्डवेयर और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। ये बाइक एक लीटर पेट्रोल में 73 किलोमीटर चलती है। स्प्लेंडर डिस्क ब्रेक वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 83,461 रुपये है. जो ड्रम ब्रेक वैरिएंट से 8.02

इविवटी म्यूचुअल फंड की मजबूत गति

जारी, अगस्त में ३ प्रतिशत बढ़ा निवेश

एजेंसी = नई दिल्ली

कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड उद्योग में समीक्षाधीन महीने में

1.08 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि जुलाई में

यह आंकड़ा 1.9 लाख करोड़ रुपये था। इक्विटी म्यूचुअल फंड

ने अगस्त में भी अपनी मजबूत गति जारी रखी और थीम

आधारित योजनाओं से मिले मजबूत योगदान से इनमें

38,239 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। एसोसिएशन ऑफ

म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में

दर्ज 37,113 करोड़ रुपये के नेट फ्लो से यह तीन प्रतिशत

अधिक रहा। लगातार 42 महीने से इक्विटी कोषों में नेट फ्लो

जारी है। कोटक महिंद्रा एएमसी के राष्ट्रीय प्रमुख (बिक्री,

विपणन तथा डिजिटल व्यापार) मनीष मेहता ने कहा, ''

एसआईपी और एनएफओ (नई कोष पेशकश) के प्रवाह के



ब्रेक मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 79,911 रुपये है। डिस्क ब्रेक वैरिएंट में तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ब्लैक स्पार्कालंग ब्लू, ब्लैक टोर्नाडो ग्रे. और रेड ब्लैक कलर शामिल हैं। भारत में नई स्प्लेंडर प्लस का मुकाबला होंडा शाइन 100, बजाज सीटी 100, बजाज प्लेटिना और टीवीएस रेडियन से है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को पॉवर देने के लिए 97.2सीसी एयर-कुल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन ८,०००आरपीएम पर एचपी और 3,550 रुपये महंगी है। ड्रम 6,000आरपीएम पर 8.05

है। इंजन को टांसमिशन के लिए 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें फ्यूल की बचत के लिए आई3एस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि बाइक 73 केएमपीएल का माइलेज देती है। इसमें 9.8 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्युल टैंक दिया गया है। कंफर्ट के लिए बाइक के टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में 5-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें साइड-स्टैंड इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और लो फ्यूल इंडिकेटर रीडआउट, कॉल और मैसेज अलर्ट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्क्र चार्जिंग पोर्ट और कुछ अन्य फीचर्स मिलते हैं।

एनएम का टॉर्क जनरेट करता

जाहिर सुचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरी माता का नाम पिन्ट् चौधरी पति मांगीलाल चौधरी मेरे आधार कार्ड एवं समग्र आईडी में दर्ज/अंकित है एवं रेखा चौधरी पति मांगीलाल चौधरी मेरे पासपोर्ट एवं मार्कशीट में दर्ज/अंकित है तथा पिन्ट चौधरी पति मांगीलाल चौधरी एवं रेखा चौधरी पति मांगीलाल चौधरी मेरी माताजी को दोनों नाम मेरी माता के होकर एक ही महिला के नाम है। तथा मेरी माता को वर्तमान एवं भविष्य में दोनों ही नामों से जाना व

पिता श्री मांगीलाल चौधरी सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)

भारत मध्यम अवधि में बजट घाटा कम करने के लिए पतिबद्ध-फिच

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और गठबंधन सरकार की मांगों पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद मध्यम अवधि में बजट घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिच रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने बजट घाटे के लक्ष्यों को हासिल किया है या उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वजह से भारत की राजकोषीय विश्वसनीयता बेहतर हुई है। फिच ने कहा कि भारत वित्त वर्ष 2024-25 में अपने राजकोषीय घाटे को नीचे लाने के लिए रिजर्व बैंक से मिले लाभांश का उपयोग कर रहा है। यह दर्शाता है कि देश अतिरिक्त खर्च के बजाय राजकोषीय मजबृती प्राथमिकता देता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ''हमारा मानना है कि भारत सरकार मध्यम अवधि में बजट घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यालय तहसीलदार, तहसील खुडेल जिला इन्दौर क./70/री.तह/2024 इन्दौर, दिनांक 14/08/24

-:: उद्घोषणा ::-

में आवंटन संबंधी आगामी कार्यवाही संपादित की नोट:-निधीरित समयावधि उपरांत आपत्तियां प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आईफोन १६ लांच होने से पहले एप्पल ने घटाए आईफोन के दाम

तद् द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि विदक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नेला इन्दीर द्वारा तहसील खुडेल अंतर्गत् ग्राम वहाय स्थित सर्वे नंबर 987 रक्तबा 1.190 है. तथा 988 रकबा 0.282 है. नजूल भूमि के आवंदन हेतू न्तेक्टर महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत कियाँ ाया है। यह प्रकरण विधिवत कार्यवाही संपादित किये जाने हेतू अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय मे प्राप्त हुआ है। यह प्रकरण जांच हेतु इस न्यायालय में वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।उक्त भूमि के आवंटन संबंधी विधिवत् कार्यवाहियां संपादित किये जाने हेत पदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपित हो ो आज दिनांक 14/08/2024 के पश्चात 07 दिवस के अंदर स्वयं या अपने प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस समयावधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इस प्रकरण

क्रमांक/14/2024/एलए/12608

तहसीलदार तहसील खुडैल जिला इन्दौर

नई दिल्ली। आईफोन लवर्स के लिए एक बड़ी कम कर दिया है। इसके अलावा एक बरी खबर भी खुशखबरी है। दरअसल आईफोन बनाने वाली है। ऐपल ने आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो

कंपनी एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होने से मेक्स समेत आईफोन के कई पुराने मॉडल अब बंद पहले अपने पुराने आईफोन मॉडलों की कीमतों को कर दिए हैं।

-नीलामी सूचना आग से प्रभावित भवन शेड,

मशीनरी और एचडीपीई पाइप स्टॉक मलबा

-नीलामी फॉर्म इच्छुक खरीदारों से निफ्टान के लिए आमींत्रत किए तोते हैं, सख्ती से 'जहां है जैसा है' के आधार पर, प्रति किलो के

जाती है, सख्ती से 'जाह हैं जैसा हैं के अकहा पर, प्रति किलो के आवार पर खीतास्त निस्तरण के लिए 1) लगाणा 30-40 माउंट आगा से खीतास्त मसन वेड, महोतीनी आहि, तो लगाणा 150-200 मीहिक टन एचडीपीई च्छा स्टीक मैसर्स मिन्नेट इंडस्ट्रींग तिसिन्टेंड का मस्ता है (समेंहण मैक उद्धीस्प रेड एस्टर, प्रइवेट तिसिन्टेंड का स्वात है (समेंहण मैक उद्धीस्प रेड एस्टर, प्रइवेट तिसिन्टेंड क्क्षार संबंधित है), उगवेब्क समग्रियों के निस्तरण का निर्मेशण पार्ट मंबर 402-405 और 475-478 पर किया जा समता है। सम्बर्ध - अवैधीक के अप्री पीम्पम्, जिल्ला घर (452447) मात्र प्रदेश, और राजीव-9770485995 से पूर्व अपईटिमेंट लेकर 11/09/24 के वीचा ई-नीलमी धर्मी के लिए 20/09/24 के वीचा इनीलमी धर्मी इनीलमी इनीलमी धर्मी इनीलमी धर्मी इनीलमी धर्मी इनीलमी

अपेंड्टम्बर तकर 11/09/24 से 19/09/24 के बोचा हु-नालामा 20/09/24 को अयोंगित की जाएगी है-नोलामी फॉर्म के लिय, शास्त्रक सेटलर्स प्राइट्स लिमिटेड (नीलामीकती) के मोबाइल नंबर-9990857386 पर श्री खुर्की सिंह से संसक्त करें, पता- 203, गीजल, उब किरण क्रिल्डा, आजादणु कर्मार्शियल कॉम्प्लेशकर कंटलो-110033 या वेबसाइट से डाउनलोड करें, www.salvorsettlers com. ई-नीलामी फॉर्म जमा करने की गींगम तिथि 20/09/24 योगहर 12:30 बजे से पहले हैं।

नाम परिवर्तन सचना

मल्होत्रा के नाम से जानी जाएगी।

जाहिर नोटीस

बळे येथील में, कामगार न्यायालय व कामगार नुकसान भरपाई आयुक्त साहेब यांचे न्यायालयात इ.सी.ए.नं. ७०/२०२३ हन रुपमिंग बहोले वरीरे

नरिन्दर सिंग वगैरे

रा.२८२, विच्णुपुरी एनएक्स,तहसिल जिला इदौर (म. प्र.)- ४५२००१ उपरोक्त प्रतीप्रार्थी आप जाबदेणार ने १ के

वाहन व्दारा दि.२६/११/२०२३ दपेर ३.०० वजे शिरपर शहर पोलीस धाना अंतर्गत आपके वाहन ने.MP 09 HH 6167 के चालक अनिल मदन बडोले की मोटार अपधात दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इसिलिए प्रार्थीयोनें इस मगार न्यायालय के समक्ष क्षतीपती प्रित्यर्थ दी एम्पलॉईज कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट के अनसार आबदेन किया है।

प्रतिपार्थी गण आप जाबरेणार ने. १ उपरोक्त

नार वारन के प्रालिक है। इसिलिए आपको इस जाहिर नोटीस के व्दारा सुचित किया जाता है की, आप स्वयंग या किसी अधिवक्ता के मार्फत इस कामगार न्यायालय समक्ष सुनवाई पेशी तारीख २७/०९/२०२४ यह दिन सबह ११.०० बजे इस कामगार न्यायालय . पमक्ष उपस्थित होकर लिखित जबाब प्रस्तत करे। अथवा तुम्हारे अनुपस्थितीत रहनेपर प्रकरण के अंतिम कार्यवाही कि जायेगी।

इस कामगार न्यायालय के हस्ताक्षर एवं मुद्रा से आज तारीख २८/०८/२०२४ को दिया है।

(S. V. Lakhmale) আন্ত্ৰ Clerk Of The Court, Labour Court, Dhule, Maharashtra

मैं, गौरव मल्होत्रा, अपनी पुत्री ख्वाइश का पिता, निवासी 25, कैलाश पार्क| कॉलोनी, इंदौर, यह सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम ख्वाइश (Khwaaish) से **बदलक**र ख्वाइश मल्होत्रा (Khwaaish malhotra) कर दिया गया है। अब से वह सभी कार्यों के लिए ख्वाइश

10/09/2024

Change in Name U HEER KURAK PARLAN nerste der siv ind indice ngal ngaranaka July BSP. ENTITUR STONAHOLITE AL

64 616 DMASH PATISAS SO MAROHER LAUTRAIDA V ADDIZHAKT MANDRIEKE DYSTER STEEN MOUNT CITY-S, BY PARS BEFORE ROAD HEDSE IN MARSIN

PRIDER'S CONTRACTOR

litter by the entire winds

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आशीष कुमार था। जो कि अब बदलकर आशीष कुमार सोनी हो गया है। अतः अब मुझे मेरे नए नाम आशीष कुमार सोनी (ASHISH KUMAR SONI) के नाम से जाना व पहचाना जावे। आशीष कुमार सोनी पिता

नाम परिवर्तन सूचना

कैलाशचन्द्र सोनी 95-ए, रामचन्द्र नगर, बिजासन रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश 452005

Change in Name

TRANSPARACIONI - A URAH KISID JAYATILIST - KI PURSAIN how the earlier have ing a new content of the least PANAHAHITA PANASIR SPO JEWAT IRTHA FURAN KI KO KO I resenting it all of the execution y

> SAME SALEMENTED PURSHING CONTINUES. EL545 (C A ROLL AND ARREST OF PARAMETER SPECIFIC

जाहिर सूचना

"संचार नगर एनेक्स" भुखण्ड क्रमांक 20, 21 एवं 22 बाबद्।

मेरे पक्षकार ने 1. श्री अमित सोनी पिता श्री जितेन्द्र सोनी 2. श्री जिगनेश सोनी **पिता श्री हुकुम सोनी** सभी निवासी 212-ए, आलोक नगर, कर्नाटका स्कूल के सामने, इन्दौर (म.प्र.) से उनके संयक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य का ग्राम खजराना तहसील जर्न इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.) में कनाडिया रोड पर विकसित कॉलोनी **'संचार नगर एनेक्स** में स्थित संयुक्त भूखण्ड क्रमांक 20, 21 एवं 22 की साईज लंबाई 105 फीट एवं चौदार्द 50 फीट होकर कल क्षेत्रफल लगभग 5260 वर्गफीट है, को क्रय करने का अनुबंध करते हुए बयाना राशि का भुगतान भी कर दिया है। उपरोक्त अनुबंध के संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति हो. तो इस सचना के प्रकाशन दिनांक से सात दिन में मेरे निम्न पते पर मय लिखित प्रमाण सहित अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरे पक्षकार द्वारा उपरोक्त संपत्ति को क्रय कर लिया जावेगा।

आदित्य सोलंकी (अभिभाषक) 122, रैफेल टॉवर, साकेत चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) (मो.नं.) 7772067772, 9893081918

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- /अ-82/23-24

नस्ती क्रमांक 14/2024 एलए खण्डवा, दिनांक 30.08.2024

उद्घोषणा (उद्योषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा-19)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत प्रारंभिक[ै] अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुईं तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनयम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रामंक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए आपेक्षित है :- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

//अनुसूची //

1. भमि का वर्णन -

(क) जिला - खण्डवा

(ग) ग्राम - मोरघडी

(ख) तहसील- **पुनासा**

(घ) अर्जित रकबा - 0.941 हेक्टेयर

अ.क्र.	कृषक/हितग्राही का नाम	खसरा	कुल	प्रस्तावित	अर्जितवि	क्रया गया	सार्वजनिक		
		नंबर	रकवा	अनुमानित	रव	बा			
				रकबा	सिंचित	असिंचित			
1	2	3	0	0	0	0	8		
1	मणीबाई प्रति प्रेमनारायण	18	0.11	0.008	0.008	0	कार्यपालन यंत्री लोक		
2	मणीबाई प्रति प्रेमनारायण	19	0.16	0.100	0.100	0	निर्माण विभाग खंडव		
3	मणीबाई प्रति प्रेमनारायण	20	0.14	0.006	0.006	0	संभाग खंडवा द्वारा		
4	मणीबाई प्रति प्रेमनारायण	23	0.38	0.28	0.28	0	इंदौर इच्छापुर		
5	मणीबाई प्रति प्रेमनारायण	24	0.74	0.04	0.040	0	बुरहानपुर एन.एच.		
6	मणीबाई प्रति प्रेमनारायण	25	0.22	0.087	0.087	0	347 बी से		
7	दूर्गेश पिता दिनेश कुमार	12/2	5.02	0.05	0.050	0	ओंकारेश्वर नए बस		
8	दिलीप कुमार पिता प्रेमनारायण	29/1	1.16	0.25	0.250	0	स्टेंड तक फोर लेन		
9	विनोद पिता केशरीमल	31	2.02	0.12	0.12	0	मार्ग लंबाई 13.00		
	कुल योग-		9.95	0.941	0.941	0	निर्माण हेतु		

नोट :- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है। 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा

कलेक्टर एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा (म.प्र.)

For CMX Holdings Limited Formerly known as Siel Financial Services Limited Aveen Kaur Sood (Director)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जी -15960/24 (अनूप कुमार सिंह)

देश के कुल 17 गोल्ड ETF (Gold Exchange Traded Fund) में अगस्त 2024 के दौरान 1,611.38 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश (inflow) हुआ, जो पिछले ईटीएफ में 1,028.06 करोड़ रुपये का साल की समान अवधि के मुकाबले 57 शुद्ध निवेश हुआ था।

सोने की कीमतों में तेजी के रुख के बीच घरेलू स्तर पर गोल्ड ईटीएफ में अगस्त 2024 के दौरान निवेश 1,600 करोड़ रुपये के पार चला गया। किसी एक महीने में गोल्ड ईटीएफ में यह अब तक का सबसे पिछले ७ महीले में गोल्ड का प्रदर्शन ज्यादा निवेश है। गोल्ड ईटीए में इससे पहले

भारत में गोल्ड ईटीएफ में निवेश

रिकॉर्ड 1,600 करोड़ रुपए के पार

अगस्त 2024	+3.8
जुलाई 2024	+4.5
जून 2024	-0.02
मई 2024	+2.45
अप्रैल 2024	+2.50
मार्च 2024	+8.69
फरवरी २०२४	+0.23
जनवरी २०२४	-1.14

फीसदी ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान देश के कुल 13 गोल्ड



साथ शुद्ध प्रवाह उत्साहजनक बना हुआ है।

IUOUI I VIOIVI	n olica dai ă	40
अगस्त 2024	+3.8	
जुलाई 2024	+4.5	
जून 2024	-0.02	
मई 2024	+2.45	
अप्रैल 2024	+2.50	
मार्च 2024	+8.69	
फरवरी 2024	+0.23	
जनवरी २०२४	-1.14	

(स्रोत: Bloomberg/WGC)

End of e-Voting

समित चौधरी

पहचाना जावे। पता-139, राम मंदिर, खातीपुरा,

CMX HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as SIEL FINANCIAL SERVICES LIMITED)

CIN No: L74110MP1990PLC007674 Address: Soni Mansion, 12-B, Ratiam Kothi, Indore, Madhya Pradesh - 452001

Email: sielfinancialservices@gmail.com | Website: www.sielfinancial.com

NOTICE OF 33" ANNUAL GENRAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

[CAAW], to transact the businesses that set out in the Notice of AGM.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder ("Act"). Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 20/2022 dated December 8, 2021, General Circular No. 20/2023 dated December 8, 2021, General Circular No. 20/2023 dated December 8, 2021, General Circular No. 20/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular No. SEBI HO/ CFO/ CMD2/ CIR/ P/ 2022/ 26 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI-10/CIPQ POD-2/P/CR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars").

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars the Annual Report for the Financial Year 2023-24.

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have been sent on September 10, 2024, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants or Registrar and Transfer Agent (RTA).

The same is also available on the website of the Company at www.sieffinancial.com. The same is also available on the websites of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com.

the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.bseindla.com.

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting at the AGM is Monday, September 23, 2024. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended and the MCA Circulars, the Company is providing the facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, it has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. Accordingly, the facility of casting votes by a Member using remote -Voting system before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Members will be provided with the facility for remote voting through electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the Meeting, will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

Upto 5.00 p.m. (IST) on September 29, 2024

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on September 27, 2024

Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting (the 'AGM') of the members of CMX Holdi Limited (Formerly known as SIEL Financial Services Limited) is scheduled to be held on September 2024 at 10:00 A.M. (IST) through two-way Video Conferencing ("VC") facility / Other Audio-Visual Me ("OAVM"), to transact the businesses that set out in the Notice of AGM.

(... Continued from previous page-2)

total

(3)

0.00

0.00

0.00

0.00

Total No. of

Shares

applied in

category

(4)

13,76,400

14,40,000

15,66,000

15,79,800

total

0.43

0.45

0.49

0.50

Proportionate

Shares

Available

(6)

3,422

3,580

3,894

3,928

No. of

Applica-

tions

received

7,91,400

FINANCIAL EXPRESS

No. of

Shares

applied for

(Category

wise)

1376400

1440000

1566000

1579800

CATEGORY

FIS/BANKS

No. of No. of No. of No. of Total No. of Surplus/ Total No. of Ration of Total No. of Ration of Proportionate Surplus/ **Proportionate** Total No. of Surplus/ Shares Applica-Shares Applica-Shares Deficite to Shares to allottees to shares Shares allottees to Deficite Shares shares applied in applied in applied for applied for tions tions total total Available applicants allocated/ (6) - (8)total total Available applicants allocated/ (6) - (8)(Category (Category received received alloted alloted category category wise) wise) (2) (6) (7) (6) (9) (4) (4) 5,506 106 0.00 0.50 3,955 4,200 -245 2214600 0.00 22,14,600 0.70 5,400 1590600 1 15,90,600 1 1 1 0.00 17,76,600 0.56 4,417 4,200 217 2573400 0.00 25,73,400 0.81 6,398 6,600 -202 1776600 223 2636400 79,09,200 2.48 19,665 1779000 0.00 17,79,000 0.56 4,423 4,200 3 0.01 19,800 -135

TOTAL

5,400

Allocation to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Offer Price of ₹ 225/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 144.21 times i.e. for 15,19,36,200 Equity shares the total number of shares allotted in this

0.67

5,332

0.00

21,44,400

No. of Shares Applied for	No. of Applications	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		Ratio of allottees to		Number of Successful	% to	Total No. of shares	% to	Surplus, Deficit
(Category wise)	received					Before rounding off	After rounding off	applicants		applicants (after rounding off)	total	allocated/ alloted	total	(6) - (12)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9	9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22800	1	1.02	22,800	0.02	158	158	600	0	1	0	0.00		0.00	158
24000	đ	1.02	24,000	0.02	166	166	600	0	1	0	0.00		0.00	166
48000	1	1.02	48,000	0.03	333	333	600	1	1	. 1	1.04	600	0.06	-267
72000	1	1.02	72,000	0.05	499	499	600	1	1	1	1.04	600	0.06	-101
111000	1	1.02	1,11,000	0.07	770	770	600	1	ា	1	1.04	600	0.06	170
133800	2	2.04	2,67,600	0.18	1,856	928	600	1	1	2	2.08	1,200	0.11	656
133800	0	0.00	0	0.00			600	14	2	0	0.00	600	0.06	-600
134400	1	1.02	1,34,400	0.09	932	932	1,200	1	ii	t	1.04	1,200	0.11	-268
175800	1	1.02	1,75,800	0.12	1,219	1,219	1,200	4	1	1	1.04	1,200	0.11	19
177600	1	1.02	1,77,600	0.12	1,232	1,232	1,200	1	1	1	1.04	1,200	0.11	32
180000	2	2.04	3,60,000	0.24	2,496	1,248	1,200	14.	1	2	2.08	2,400	0.23	96
181800	1	1.02	1,81,800	0.12	1,261	1,261	1,200	1	1	1	1.04	1,200	0.11	61
211200	1	1.02	2,11,200	0.14	1,465	1,465	1,200	1	1	1	1.04	1,200	0.11	265
217200	1	1.02	2,17,200	0.14	1,506	1,506	1,200	1	1	1	1.04	1,200	0.11	306
222000	3	3.06	6,66,000	0.44	4,618	1,539	1,200	1	1	3	3.13	3,600	0.34	1,018
222000	0	0.00	0	0.00			600	2	3	0	0.00	1,200	0.11	-1,200
229200	1	1.02	2,29,200	0.15	1,589	1,589	1,800	1	1	1	1.04	1,800	0.17	-211
240000	2	2.04	4,80,000	0.32	3,329	1,664	1,800	1	1	2	2.08	3,600	0.34	-271
266400	1	1.02	2,66,400	0.18	1,847	1,847	1,800	1	1	1	1.04	1,800	0.17	47
288600	1	1.02	2,88,600	0.19	2,001	2,001	1,800	1	1	1	1.04	1,800	0.17	201
311400	1	1.02	3,11,400	0.20	2,159	2,159	2,400	1	1	1	1.04	2,400	0.23	-241
316800	1	1.02	3,16,800	0.21	2,197	2,197	2,400	1	1	1	1.04	2,400	0.23	-203
330000	1	1.02	3,30,000	0.22	2,288	2,288	2,400	1	1	1	1.04	2,400	0.23	-112
333600	1	1.02	3,33,600	0,22	2,313	2,313	2,400	4	10	1	1.04	2,400	0.23	-87
351000	1	1.02	3,51,000	0.23	2,434	2,434	2,400	1	1	1	1.04	2,400	0.23	34
405000	1	1.02	4,05,000	0.27	2,808	2,808	3,000	1	1	1	1.04	3,000	0.28	-192
417600	1	1.02	4,17,600	0.27	2,896	2,896	3,000	1	1	1	1.04	3,000	0.28	-104
421800	1	1.02	4,21,800	0.28	2,925	2,925	3,000	1	- 3	1	1.04	3,000	0.28	-75
445200	1	1.02	4,45,200	0.29	3,087	3,087	3,000	1	1	1	1.04	3,000	0.28	87
448800	1	1.02	4,48,800	0.30	3,112	3,112	3,000	4	1	1	1.04	3,000	0.28	112
457200	1	1.02	4,57,200	0.30	3,170	3,170	3,000	1	1	1	1.04	3,000	0.28	170
594000	1	1.02	5,94,000	0.39	4,119	4,119	4,200	4	1	1	1.04	4,200	0.40	-81
666600	1	1.02	6,66,600	0.44	4,623	4,623	4,800	1	i	1	1.04	4,800	0.46	-177
669000	1	1.02	6,69,000	0.44	4,639	4,639	4,800	14,0	_1	1	1.04	4,800	0.46	-161
711000	1	1.02	7,11,000	0.47	4,930	4,930	4,800	1	1	1	1.04	4,800	0.46	130
799800	1	1.02	7,99,800	0.53	5,546	5,546	5,400	1	1	1	1.04	5,400	0.51	146
842400	1	1.02	8,42,400	0.55	5,842	5,842	6,000	1	9	1	1.04	6,000	0.57	-158
888600	1	1.02	8,88,600	0.58	6,162	6,162	6,000	1	1	1	1.04	6,000	0.57	162

Total No. of

shares

allocated/

alloted

3,600

3,600

3,600

4,200

Deficite

(6) - (8)

(9)

-178

-20

294

-272

2144400

Ration of

allottees to

applicants

(7)

1 1

- 1

No. of Shares Applied for	No. of Applications	% to	Total No. of Shares	% to	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		Ratio of allottees to		Number of Successful	% to	Total No. of shares	% to	Surplus/ Deficit
(Category wise)	received	total	applied in each category	total		Before rounding off (7)	After rounding off (8)	applicants		applicants (after rounding off)	total	allocated/ alloted	total	(6) - (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
889200	1	1.02	8,89,200	0.59	6,166	6,166	6,000	1	1	1	1.04	6,000	0.57	166
900000	1	1.02	9,00,000	0.59	6,241	6,241	6,000	1	1	1	1.04	6,000	0.57	241
909600	1	1.02	9,09,600	0.60	6,308	6,308	6,000	1	218	1	1.04	6,000	0.57	308
933000	1	1.02	9,33,000	0.61	6,470	6,470	6,600	1	1	1	1.04	6,600	0.63	-130
1053600	1	1.02	10,53,600	0.69	7,306	7,306	7,200	1	1	1	1.04	7,200	0.68	106
1066800	1	1.02	10,66,800	0.70	7,398	7,398	7,200	1	1	1	1.04	7,200	0.68	198
1111200	2	2.04	22,22,400	1.46	15,411	7,706	7,800	1	11	2	2.08	15,600	1.48	-189
1195200	1	1.02	11,95,200	0.79	8,288	8,288	8,400	1	7	1	1.04	8,400	0.80	-112
1200000	2	2.04	24,00,000	1.58	16,643	8,321	8,400	1	31	2	2.08	16,800	1.59	-157
1293000	1	1.02	12,93,000	0.85	8,966	8,966	9,000	1	1	1	1.04	9,000	0.85	-34
1333200	1	1.02	13,33,200	0.88	9,245	9,245	9,000	1	1	1	1.04	9,000	0.85	245
1374600	1	1.02	13,74,600	0.90	9,532	9,532	9,600	1	1	1	1.04	9,600	0.91	-68
1480200	1	1.02	14,80,200	0.97	10,264	10,264	10,200	1	1	1	1.04	10,200	0.97	64
1554600	1	1.02	15,54,600	1.02	10,780	10,780	10,800	1	1	1	1.04	10,800	1.03	-20
1572000	1	1.02	15,72,000	1.03	10,901	10,901	10,800	1	1	1	1.04	10,800	1.03	101
1738200	1	1.02	17,38,200	1.14	12,054	12,054	12,000	1	1	1	1.04	12,000	1.14	54
1794000	1	1.02	17,94,000	1.18	12,440	12,440	12,600	1	1	1	1.04	12,600	1.20	-160
1809000	1	1.02	18,09,000	1.19	12,544	12,544	12,600	1	1	1	1.04	12,600	1.20	-56
1998600	1	1.02	19,98,600	1.32	13,859	13,859	13,800	1	1	1	1.04	13,800	1.31	59
2004600	1	1.02	20,04,600	1.32	13,901	13,901	13,800	1	1	1	1.04	13,800	1.31	101
2088600	1	1.02	20,88,600	1.37	14,483	14,483	14,400	1	1	1	1.04	14,400	1.37	83
2100000	2	2.04	42,00,000	2.76	29,125	14,562	14,400	1	1	2	2.08	28,800	2.73	325
2100000	0	0.00	0	0.00	0.00-77411	2000000	600	1	2	0	0.00	600	0.06	-600
2103600	7	7.14	1,47,25,200	9.69	1,02,112	14,587	14,400	1	1	7	7.29	1,00,800	9.57	1,312
2103600	0	0.00	0	0.00		103-50-003	600	2	7	0	0.00	1,200	0.11	-1,200
2222400	1	1.02	22,22,400	1.46	15,411	15,411	15,600	1	1	1	1.04	15,600	1.48	-189
2777400	1	1.02	27,77,400	1.83	19,260	19,260	19,200	1	1	1	1.04	19,200	1.82	60
2889000	1	1.02	28,89,000	1.90	20,034	20,034	19,800	1	18	1	1.04	19,800	1.88	234
3333000	1	1.02	33,33,000	2.19	23,113	23,113	23,400	1	1	1	1.04	23,400	2.22	-287
3466200	2	2.04	69,32,400	4.56	48,073	24,036	24,000	1	1	2	2.08	48,000	4.56	73
3508800	1	1.02	35,08,800	2.31	24,332	24,332	24,600	1	1	1	1.04	24,600	2.33	-268
3666600	1	1.02	36,66,600	2.41	25,426	25,426	25,200	1	1	1	1.04	25,200	2.39	226
3688800	2	2.04	73,77,600	4.86	51,160	25,580	25,200	1	1	2	2.08	50,400	4.78	760
3688800	0	0.00	0	0.00	C. 100-400-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	COLOR #515 19557	600	1	2	0	0.00	600	0.06	-600
3690000	15	15.31	5,53,50,000	36.43	3,83,824	25,588	25,200	1	1	15	15.63	3,78,000	35.88	5,824
3690000	0	0.00	0	0.00		1000 041 10000	600	2	3	0	0.00	6,000	0.57	-6,000
TOTAL	98	100.00	15,19,36,200	100.00	10,53,600					96		10,53,600		

36054 |100.00 |31,83,06,000 |100.00

7,91,400

Allocation to Anchor Investors (After Rejections & Withdrawal): The Company in consultation with the BRLM has allotted 15,78,000 Equity Shares to 21 Anchor Investors at Anchor Investor Offer Price of ₹ 225/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

NBFC'S

FPC

OTHERS

TOTAL

2,87,400 4,90,800 7,99,800 15,78,000 Anchor Allocation to Market Maker (After Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Offer Price of ₹ 225/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 3,00,000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 3,00,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	allocated/allotted R2		Ra	itio	Total Number of shares allotted	Surplus/ Deficite
3,00,000	1	100.00	3,00,000	100.00	3,00,000	1	. 1	3,00,000	
TOTAL	1	100.00	3,00,000	100.00	3,00,000			3,00,000	

The Board of Directors of the Company at its meeting held on September 09, 2024 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for offer of the Equity Shares to various successful applicants. The CAN-cum-allotment advices and/or notices will be forwarded to the email id's and address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before September 10, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will process on or Before September 10, 2024. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME within three working days from the date of the closure of the offer.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 06, 2024 ("Prospectus") filed with Registrar of Companies, Delhi

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the offer, Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com, All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

SEBI Registration No.: INR000003241 Address: D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi, Delhi–110020, India

Telephone Number: 011-40450193 to 97 | Fax No.: +91 011-26812682 | Email Id: ipo@skylinerta.com | Investor Grievance E-mail ID: info@skylinerta.com

Website: www.skylinerta.com | Contact Person: Anuj Rana | CIN: U74899DL1995PTC071324

For MACH CONFERENCES AND EVENTS LIMITED On behalf of the Board of Directors Sd/-**Amit Bhatia**

Chairman & Managing Director

DIN: 00351412

Date: September 10, 2024 Place: Noida

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MACH CONFERENCES AND EVENTS LIMITED.

Mach Conferences and Events Limited is proposing, subject to market conditions, public offer of its equity shares and had filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Delhi. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager at www.beelinemb.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Offeror Company at www.machconferences.com; Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

AA PLUS TRADELINK LIMITED

CIN:-U74900MH2016PLC274726 Reg. Office- B-702, Divine Jalpa, Gomati Bhuvan, Near Jain Temple, Jambli Gali, Borivali (West), Mumbai - 400092, Maharashtra, India

NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting (AGM) of the Members of AAplus Tradelink

Limited on Saturday, 28th September, 2024 at 12.00 P.M. (IST) through Physical mode at the registered office of the company. The Annual Report of the Company including the Notice convening the AGM of the Company was sent

through electronic mode to all the Members whose email IDs are registered with the Depository Participant(s)/Company's Registrar & Share Transfer Agents Purva Sharegistry (India) Private Limited. Remote E-voting (voting on resolutions proposed at the AGM through electronic mode):

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated September 02, 2024. The Company has availed the remote e-voting services as provided by Central Depository Services Limited (CDSL). Mrs. Vishakha Agrawal, Practicing Company Secretary, Indore, has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in fair and transparent manner. The voting period begins at 9.00 A.M (IST) on Wednesday, September 25, 2024 and ends at 5.00 P.M (IST) on Friday, September 27, 2024. During this period, Members of the Company whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut off date i.e. Saturday, September 21, 2024, may cast their vote electronically. Once the vote on resolution(s) is cast by Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Any person, who become Member of the Company subsequent to the sending of email/dispatch of Annual Report and their names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut off date can attend the AGM through Physical mode at the registered office of the company and send a requisition quoting Folio No./DP-ID-Client ID for obtaining copy of the Notice and Annual Report, to the Registered Office of the Company or RTA, Purva Sharegistry (India) Private Limited. The Members are requested to follow the instructions given in Note the Notice of AGM to get the login ID & Password for remote e-voting. Members who cast their votes electronically shall not be allowed to vote again at the AGM. However, in case a Member, who has cast his vote electronically, can attend the AGM through Physical mode at the registered office of the company. The Notice of AGM is available on the website of the Company viz., www.aaplustradelink.com and also on website of CDSL www.cdslindia.com. In case of gueries/grievances with regard to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at evoting @cdslindia.com or CDSL's toll free member 1800 22 55 33 for any information or

Date: 10th September, 2024 Place:Indore

clarification regarding E-voting.

By Order of the Board For AAplus Tradelink Limited Ashok Amritlal Shah Director DIN: 07427185

CMX HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as SIEL FINANCIAL SERVICES LIMITED) CIN No: L74110MP1990PLC007674

Address: Soni Mansion, 12-B, Ratlam Kothi, Indore, Madhya Pradesh - 452001 Email: sielfinancialservices@gmail.com | Website: www.sielfinancial.com

NOTICE OF 33" ANNUAL GENRAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting (the 'AGM') of the members of CMX Holdings Limited (Formerly known as SIEL Financial Services Limited) is scheduled to be held on September 30, 2024 at 10:00 A.M. (IST) through two-way Video Conferencing ("VC") facility / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses that set out in the Notice of AGM

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder ('Act'); Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020. General Circular No. W 2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 General Circular No. w 2021 dated January 13, 2021; General Circular No. 2020; I dated December 8, 2021; General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular No. SEBV HO/ CFO/ CMD2/ CIR/ P/ 202'2/ 62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBVHO/CFD/PoD-'2/P/CIR/ 2023/4 dated January 05, 2023 and "SEBI Circular No. SEBVHO/CFD/ CFD-PoD-'2/P/CR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI


In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have been sent on September 10, 2024, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants or Registrar and Transfer Agent (RTA). The same is also available on the website of the Company at www.sielfinancial.com. The same is also available on the websites of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com.

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting at the AGM is Monday, September 23, 2024. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended and the MCA Circulars, the Company is providing the facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, it has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. Accordingly, the facility of casting votes by a Member using remote e-Voting system before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on September 27, 2024 End of e-Voting Upto 5.00 p.m. (IST) on September 29, 2024

Members will be provided with the facility for remote voting through electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the Meeting, will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

For CMX Holdings Limited Formerly known as Siel Financial Services Limited Aveen Kaur Sood (Director) DIN-0263845



estructuring or in any other manner permitted under the law Option C: To submit resolution plan for rest of the Corporate Debtor (excluding Residentia

*Clarification: In case of plan received under all the 3 Options the acceptance or rejection of the plans would depend on the CoC's commercial wisdom Date: 11" September, 2024 CA ManojKumar Babulai Agarwal

Place: Pune Resolution Professional of Galore Developers Private Limited IBBI/IPA-001/IP-P00980/2017-2018/11613 Office No-4, First Floor Hotel Citi Pride Behind Ambedkar Statue Pimpri, Pune, Maharashtra, 411018 AFA Valid Upto- 2nd January, 2025 financialexp.epapr.in

New Delhi



financialexpress.com